

गर्मी की धमक के साथ ब्रांडेड पंखे का नकली स्टॉक, दो दुकानों पर छापा



सीतामढ़ी। पढ़ने की किताबें हों या खाने-पीने का सामान, मोटर पार्ट्स हो या मोबिल या इलेक्ट्रीक-इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सभी के नकली उत्पाद बाजार में धड़ल्ले से बिकते हुए मिल रहे हैं। इसी फरवरी माह में नकली मोटर्स पार्ट्स व नकली मोबिल आयल फैक्ट्री के उदभेदन के बाद नकल का एक और मामला बुधवार को सामने आया। सीतामढ़ी शहर के मेनरोड में तूफान पंखे का नकली ब्रांड वाला सामान बेचने की कंपनी के पदाधिकारी की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस के अनुसार, शहर में तूफान कंपनी का नकल पंखे बेचने की सूचना पर दिल्ली से आए कंपनी के पदाधिकारी अमित कुमार ने पुलिस से शिकायत की। इसी सूचना नगर थाना प्रभारी राकेश कुमार ने मेन रोड बाटा चौक के समीप दो दुकानों में छापेमारी की। सूचना सही पाई गई। वहां से 48 पीस नकली पंखा बरामद किया गया। दो लोगों को हिरासत में भी लिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार, ललन इलेक्ट्रॉनिक नामक दुकान से 45 पीस व साउंड मास्टर नामक दुकान से तीन पीस नकली पंखा बरामद किया गया। एसडीपीओ सदर रमाकांत उपाध्याय ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही थी। पांच फरवरी को नकली मोटर्स पार्ट्स की दुकान पर छापेमारी शहर के मेहसौल इलाके में पांच फरवरी को टीवीएस कंपनी के पदाधिकारी की शिकायत पर भारी मात्रा में नकली स्पेयर पार्ट्स बरामद किए गए। बालाजी ऑटो मोबाइल सिद्धार्थ एजेंसी मेहसौल चौक पर इस दुकान में छापेमारी हुई तो टीवीएस कंपनी के नकली स्पेयर पार्ट्स बरामद हुए। उसके बाद दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, दुकानदार सुनील कुमार मेहसौल चोक वार्ड नंबर-27 निवासी पिता रमाश्रय चौधरी का पुत्र है। वी एंड जे कंपनी में अनुसंधान पदाधिकारी विप्लव विश्वास की शिकायत पर दुकान पर छापेमारी की गई। शिकायत सही पाई गई तथा दुकान से नकली स्पेयर पार्ट्स भी बरामद हो गए। दुकानदार पर धोखाधड़ी के साथ अन्य सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

Source: <https://www.jagran.com/bihar/sitamarhi-fake-stock-of-branded-fans-with-the-threat-of-heat-raids-on-two-shops-22531825.html>